



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2011/पौष 15, 1932

No. 15]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2011/PAUSA 15, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2011

का.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके साथ संलग्न सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित राज्यों की बाबत, उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ एतद्वारा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुशंसित रिटर्निंग अधिकारी का नाम, पदनाम और पता
(1)	(2)	(3)
1.	बिहार	श्री प्रवीण कुमार, उप-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना (बिहार)
2.	मध्य प्रदेश	डॉ. श्यामलाल शर्मा, प्राचार्य, राजकीय अस्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
3.	उत्तराखण्ड	श्रीमती मायावती धकरियाल, अवर सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून
4.	पश्चिम बंगाल	श्री मिस्बाहुल हक, डब्ल्यूबीसीएस (एक्जीक्यूटिव), विशेष कार्य अधिकारी व पदेन उप-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष ब्रांच, स्वास्थ्य भवन, सॉल्ट लेक, कोलकाता
5.	आंध्र प्रदेश	श्रीमती सीएच. राजा सुलोचना, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, एल ब्लॉक, तृतीय तल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद-500022

[फा. सं. ए-11019/70/2010/आयुर्वेद डेस्क/सीसीआईएम-निर्वाचन]

जैस्मिन जेम्स, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2011

S.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, the Central Government, hereby appoints the officer mentioned in column (3) of the Table annexed hereto to be the Returning Officers for the purpose of the said rules in respect of the States mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

S.No.	Name of the State	Name, designation and address of the Returning Officer recommended
(1)	(2)	(3)
1.	Bihar	Shri Praveen Kumar, Deputy Secretary, Health Department, Patna (Bihar)
2.	Madhya Pradesh	Dr. Shyamlal Sharma, Principal, Government Astang, Ayurved Mahavidhalaya Indore
3.	Uttarakhand	Smt. Mayawati Dhakriyal, Under Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun
4.	West Bengal	Mr. Mesbahul Haque, WBCS (Exe.), Officer on Special Duty and ex-officio Deputy Secretary, Health and Family Welfare Department, AYUSH Branch, Swasthya Bhawan, Salt Lake, Kolkata
5.	Andhra Pradesh	Smt. Ch. Raja Sulochana, Joint Secretary, Government of Andhra Pradesh, Health, Medical and Family Welfare Department, L-Block, 3rd Floor, Andhra Pradesh Secretariat, Hyderabad-500022.

[F. No. A-11019/70/2010/Ayurveda Desk/CCIM-Election]

JASMINE JAMES, Under Secy.